



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 67]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2001/माघ 23, 1922

No. 67]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2001/MAGHA 23, 1922

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

अधिसूचना

सुन्वई, 17 नवम्बर, 2000

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2000

सा. का. नि. 89(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खण्ड (बी) और धारा 47 की उपधारा (2) के खण्ड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 3 मई, 2000 को उसकी अधिसूचना सं. फे मा 10/2000 आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 (द्वितीय संशोधन) कहा जाएगा।

(11) ये तत्काल लागू होंगे।

2. विनियमावली और अनुसूची में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 (इसके पश्चात् उक्त विनियमों के रूप में उल्लिखित) में

(क) विनियम 9 में परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाए, यथा,

“ बशर्ते विनियम 4 में उल्लिखित ईईएफसी खाता केवल बिना ब्याज के चालू खाता के रूप में खोला, धारण अथवा बनाये रखा जाना चाहिए। ”

(ख) उक्त विनियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा (1) में क्रमशः “ 35 प्रतिशत तक ” और “ 25 प्रतिशत तक ” शब्दों के लिए “ 70 प्रतिशत तक ” और “ 50 प्रतिशत तक ” शब्दों को प्रतिस्थापित किये जायें।

[अधिसूचना सं. फेमा 30/2000—आरबी]

डी. पी. सारडा, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
(Exchange Control Department)
NOTIFICATION

Mumbai, the 17th November, 2000

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India)
(Second Amendment) Regulations, 2000

G.S.R. 89(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its notification No. FEMA10/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, namely :—

1. Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2000.
- (ii) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of the Regulations and the Schedule

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India), Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "the said Regulations"),

- (a) in Regulation 9, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—
"Provided that the EEFC Account referred to in Regulation 4, shall be opened, held or maintained in the form of a non-interest bearing current account only;"
- (b) in the Schedule to the said Regulations, in paragraph (1), for the words "up to 35 per cent" and "up to 25 per cent", the words "up to 70 per cent" and "up to 50 per cent", shall be substituted.

[Notification No. FEMA 30/2000-RB]

D. P. SARDA, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 27 नवम्बर, 2000

सा. का. नि. 90(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और दिनांक 3 मई, 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 4/2000 आरबी के आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन किया है, यथा :

1. (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना और उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2000 कहा जायेगा।
(ii) ये तत्काल लागू होंगे।
2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2000 के विनियम 7 के परंतुक (डी) में "अनिवासी सामान्य (एनआरओ)" शब्द को हटा दिया जाये।

[अधिसूचना सं. फेमा 31/2000-आरबी]

डी. पी. सारडा, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th November, 2000

G.S.R. 90(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (3) of Section 6 and Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 4/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000, namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Amendment) Regulations, 2000.
- (ii) These shall come into force with immediate effect.
2. In the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000, in Regulations 7, in proviso (d), the words "Non-Resident Ordinary (NRO)" shall be deleted.

[Notification No. FEMA 31/2000-RB]

D. P. SARDA, Executive Director